



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

17 आषाढ़ 1937 (श10)  
(सं0 पटना 780) पटना, बुधवार, 8 जुलाई 2015

---

सं0 भवन-03/स्था0ए0-15/2014—7059(भ0)

भवन निर्माण विभाग

संकल्प

7 जुलाई 2015

भवन निर्माण विभाग में अभियंत्रण सेवा संवर्ग के कनीय अभियंताओं, जिनका पूर्ण स्थापना और प्रशासनिक नियंत्रण विभाग में सन्निहित है, को बिहार राज्य कर्मचारी सेवाशर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2003 तथा बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त “रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010” के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत करने हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-4685 वि.(2) दिनांक 25.06.2003 एवं 1802 दिनांक 23.03.2006 तथा 7549 दिनांक 13.07.2010 एवं 7566 दिनांक 14.07.2010 के आलोक में विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी का निम्न रूप से गठित करने का निर्णय लिया गया है:-

- |    |  |   |         |
|----|--|---|---------|
| 1. | प्रधान सचिव,   | — | अध्यक्ष |
|    | भवन निर्माण विभाग  |   |         |
| 2. | अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव                     | — | सदस्य   |
|    | भवन निर्माण विभाग या उनके अनुपस्थित में अभियंता प्रमुख के सचिव |   |         |
|    | प्रावैद्यिकी, भवन निर्माण विभाग                                |   |         |

3.	संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग	-	सदस्य
4.	आन्तरिक वित्तीय सलाहकार या वित्त विभाग द्वारा मनोनित सदस्य/एक पदाधिकारी	-	सदस्य
5.	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनित अनु०जाति/ अनु० जनजाति के एक पदाधिकारी	-	सदस्य
6.	उप-सचिव-2 (अराजपत्रित स्थापना प्रभारी) भवन निर्माण विभाग।	-	सदस्य

**आदेश:**—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए एवं इसकी सूचना सभी विभाग/विभागोध्यक्षों को दी जाए।

आदेश से,

जनक राम,

सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 780-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>